

GML/DEL/2022-23
September 05, 2022

Bombay Stock Exchange Limited Floor 25, PJ Towers Dalal Street, Mumbai- 400 001, INDIA Scrip Code: 532726	National Stock Exchange of India Limited "EXCHANGE PLAZA" Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai- 400 051, INDIA Scrip Code: GALLANTT
---	--

Dear Sir/Madam,

SUB: NEWSPAPER PUBLICATION – DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

Pursuant to the Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose herewith the newspaper advertisement published in two newspapers Business Standard (English - all edition) and Metro Media (Vernacular – Hindi) on September 05, 2022, intimating that the 18th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Thursday, 29th day of September, 2022 at 3:30 P.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 31, 2021 read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022.

Thanking you,

Yours faithfully,

For GALLANTT ISPAT LIMITED
(Formerly known as Gallantt Metal Limited)

Nitesh Kumar
COMPANY SECRETARY
M. No. F7496

Encl: As above

GALLANTT ISPAT LIMITED

(Formerly known as Gallantt Metal Limited)

Registered Office: "GALLANTT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi -110014

Telefax: 011-45048767/41645392, 033-46004831, E-mail: csgml@gallantt.com, Website: www.gallantt.com

Corporate Office: 1, Crooked Lane, Second Floor, Room Nos. 222 & 223, Kolkata - 700069 Tel: 033-46004831

CIN: L27109DL2005PLC350524

ARSS INFRASTRUCTURE PROJECTS LIMITED

Registered Office: Plot No.: 38, Sector-A, Zone-D, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751010, Odisha, India, CIN: L14103OR2000PLC006230, Tel No.: +91-0674-2602763, E-mail: cs@arssgroup.in, Website: www.arssgroup.in

NOTICE OF THE 22ND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY TO BE CONVENED THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), BOOK CLOSURE, RECORD DATE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 22nd Annual General Meeting of ARSS Infrastructure Projects Limited ("the Company") will be held through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on **Tuesday 27th September, 2022 at 11.00 A.M. (IST)**, in compliance with all the provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with subsequent Circulars issued in this regard, the latest being 2/2022 dated 5th May, 2022, issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("collectively referred to as MCA Circulars") and Circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) dated 5th May, 2022 ("collectively referred to as SEBI Circulars"), to transact business set out in the Notice calling the 22nd AGM dated 13th August, 2022.

Members are hereby informed that in compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2021-22 have been sent electronically on 3rd September, 2022 to all the Members of the Company whose email address are registered with the Company/Registrars and Transfer Agent/Depository Participant(s).

The Resolutions covered in the Notice of the 22nd AGM will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. National Securities Depository Limited ("NSDL") has been engaged by the Company for providing the e-voting platform. The e-voting facility will also be available at the AGM and members who have not cast their votes by remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote at the AGM.

Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. **Tuesday 20th September, 2022** will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or through e-voting at the AGM. A person who is not a Member as on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for information purposes only. Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before the cut-off date may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or investor@bigshareonline.com requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

The period for remote e-voting starts at **09:00 a.m. on Saturday, the 24th September, 2022 and ends at 05:00 p.m. on Monday, the 26th September, 2022**, thereafter the remote e-voting will be blocked by NSDL. Further, once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have casted their votes by remote e-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting once again.

In case of any query/grievance with respect to Remote E-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-Voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact:

- Mr. Amit Vishai, AVP / Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parei, Mumbai 400 013 at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 224 430 or at E-mail ID : evoting@nsdl.co.in
- Mr. Prakash Chhajjar, Company Secretary, ARSS Infrastructure Projects Limited, Plot-38, Sector-A, Zone-D, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751010 at telephone nos. 0674-2602763 or e-mail at cs@arssgroup.in

The company has appointed Mr. Jyotirmoy Mishra (Membership No. FCS-6556 & CP No. 6022) of M/s Sunita Jyotirmoy & Associates, Practicing Company Secretaries, Bhubaneswar as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process as well as voting at the Annual General Meeting in a fair and transparent manner.

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 22nd AGM. The declared Results alongwith the Scrutinizer's Report will be available forthwith on the Company's corporate website www.arssgroup.in and on NSDL's e-voting website. Such Results will also be forwarded by the Company to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and BSE Limited (BSE).

As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to Members. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below, for registering their e-mail addresses to receive the Notice of AGM and Integrated Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting.

- For members who hold shares in demat mode:**
 - Visit the link <https://bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>
 - Enter the DP ID & Client ID, PAN details and captcha code.
 - System will verify the Client ID and PAN details.
 - On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile number.
 - Enter your e-mail address and mobile number.
 - The system will then confirm the e-mail address for the limited purpose of servicing the Notice of this AGM along with the Annual Report 2021-22.
- Members holding shares in dematerialized mode are however requested to register/update their e-mail address with the relevant Depository Participant(s) for permanent registration.**
- For members who hold shares in physical mode:**
 - Visit the link <https://bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>
 - Enter the physical Folio Number, PAN details and captcha code.
 - In the event the PAN details are not available on record, member to enter one of the share certificate's number.
 - System will verify the Folio Number and PAN details or the share certificate number.
 - On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile number.
 - Enter your e-mail address and mobile number.
 - If PAN details are not available, the system will prompt the member to upload a self-attested copy of the PAN card.
 - The system will then confirm the e-mail address for the purpose of servicing the Notice of this AGM along with the Annual Report 2021-22.

Book Closure:
Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and applicable regulation of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the **Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 20th September, 2022 to Tuesday, the 27th September, 2022 (both days inclusive)** for the purpose of 22nd AGM of the Company for the financial year ended March 31, 2022.

The Notice of the 22nd AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 are available on the Company's corporate website (www.arssgroup.in), NSDL's e-voting website (www.evoting.nsdl.com) and on the websites of NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com).

By Order of the Board
For ARSS Infrastructure Projects Ltd.
Sd/-
(Prakash Chhajjar)
(Company Secretary & Compliance Officer)
(FCS - 8473)

Place : Bhubaneswar
Date : 03.09.2022

DDEV PLASTIKS INDUSTRIES LIMITED

Regd Office: 2B, Pretoria Street, Kolkata - 700 071
Telephone: 91-033-2282 3744/3745/3699/3671, Fax: 91-033-2282 3739
E-Mail: kolkata@ddevgroup.in, Website: www.ddevgroup.in
CIN: U24290WB2020PLC241791

NOTICE OF 02ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- The 02nd (Second) Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Thursday, the 29th day of September, 2022 at 11:30 A.M. (IST) at Gyan Manch, 11 Pretoria Street, Kolkata - 700 071 to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.
- Notice of 02nd AGM and Annual Report for the year 2021-22 have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents (RTA), C.B. Management Services (P) Ltd./ Depository Participant(s), pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. However, such members have been offered the facility of opting for a physical copy of the Annual Report. Physical copy of Notice of 02nd AGM and Annual Report for the year 2021-22 have been sent to those members who have not registered their e-mail IDs with Depository Participant(s)/Company/Company's RTA, at their registered address, in the permitted mode. The same are also available on the website of the company at www.ddevgroup.in and also on the NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>. Members who do not receive the Notice of AGM and Annual Report may download it from company's website or may request for a copy of the same by writing to the e-mail id: kolkata@ddevgroup.in or registered office of the Company. The date of completion of dispatch of Notice of 02nd AGM along with explanatory statement, route map of AGM Venue, Proxy Form, E-Voting instructions, Attendance Slip and E-Voting User ID & Password and Annual Report for the Financial Year 2021-22, in physical as well as Electronic mode, is 03rd September, 2022.

3. In accordance with the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 23rd September, 2022 to Thursday, 29th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and dividend.

4. The Directors have proposed dividend @ 24% (i.e. Rs. 0.24p per fully paid up equity share of face value Rs. 1/- each) for consideration by the members at the ensuing Annual General Meeting. Dividend, if approved by members, will be paid to shareholders who are holding shares of the Company as on 22nd September, 2022 within the statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

5. SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20th April, 2018 has mandated that for making dividend payments, companies whose securities are listed on the stock exchanges shall use electronic clearing services (local, regional or national), direct credit, real time gross settlement, national electronic funds transfer etc. Further, pursuant to MCA General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, companies are directed to credit the dividend of the members directly to the bank accounts of the members using Electronic Clearing Service. Members are requested to submit their mandate along with requisite enclosures for opting for electronic credit on or before 21st September, 2022 so as to enable the Company to pay dividend through electronic mode. Members who are holding shares in physical form are requested to send their mandates to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, C.B. Management Services (P) Ltd., Unit Ddev Plastik Industries Limited, P-22, Bondel Road, Kolkata - 700019. Those holding shares in electronic mode are requested to send their mandate directly to their Depository Participant(s) (DPs).

6. Further, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, Secretarial Standard 2 on General Meeting issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) all members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, Thursday, 22nd September, 2022, are provided with the facility to cast their vote electronically ("remote e-voting facility"), on the business as set forth in the Notice of the AGM, for which the company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as e-voting agency.

- The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of the AGM (Remote E-Voting). The instructions for voting through electronic means (Remote e-voting) are given in the Notice of AGM. All the members are informed that:
 - The remote e-voting shall commence on Monday, 26th September, 2022 at 09:00 A.M. (IST)
 - The remote e-voting shall end on Wednesday, 28th September, 2022 at 05:00 P.M. (IST).
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Thursday, 22nd September, 2022.
 - The voting rights shall be in proportion to their shares of the paid up share capital of the Company as on cut off date.
 - Remote e-voting module shall be disabled by NSDL and E-Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 05:00 P.M. (IST) on Wednesday, 28th September, 2022.

vii. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date, i.e. Thursday, 22nd September, 2022 may obtain the Login ID and password by sending an e-mail request at evoting@nsdl.co.in or at rtat@cbmsl.com or by calling on Toll Free No. 1800-1020-990 or 1800-22-44-30. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.

- Members may note that:
 - Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
 - The facility for voting through ballot paper/polling paper shall be made available at the venue of AGM for those members who attend the AGM.
 - The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. In case vote is cast it will be treated invalid and only E-Vote cast will be considered.
 - A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper/polling paper.
 - The Company has appointed Shri Ashok Kumar Daga, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

ix. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available under the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or 1800-22-44-30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manager at evoting@nsdl.co.in

7. Members holding shares in physical mode are requested to notify changes relating to address, KYC, bank account details to the RTA, C.B. Management Services (P) Ltd. on or before the cut off date. Members who are holding shares in electronic form are requested to update the said particulars with respective DP.

For Ddev Plastik Industries Limited
Sd/-
Tanvi Goenka
(Company Secretary)

Place: Kolkata
Date: 03.09.2022

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No : 46/2022-23/SE/PHC/PKD
JMM 2021-22 – WSS to Thachanattukara Panchayath - Construction of GLSR 66LL, Supplying and Laying CWPM, distribution system and providing FHCTS (421 Nos), erection of pumpset, transformer and road restoration. EMD: Rs. 5,00,000/
Tender fee: Rs. 15,000/- Last Date for submitting Tender: 22-09-2022 03:00 pm. Kerala: 04912544927. Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in
Superintending Engineer
PH Circle, Palakkad

KWA-JB-GL-6-748-2022-23

GALLANT

GALLANT ISPAT LIMITED
(Formerly known as Gallant Metal Limited)
Regd. Office: "GALLANT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi - 110014
Telefax: 011-45048767; Fax: 011-45048767;
Website: www.gallant.com; E-mail: csnml@gallant.com
CIN: L27109DL2005PLC39524

INFORMATION REGARDING 18TH ANNUAL GENERAL MEETING OF GALLANT ISPAT LIMITED (FORMERLY KNOWN AS GALLANT METAL LIMITED) TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING) /OAVM (OTHER AUDIO VISUAL MEANS)

NOTICE is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Thursday, the 29th day of September, 2022 at 3.30 P.M.** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means ("OAVM").
In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 read with General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 respectively and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/111 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and other applicable circulars (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

The Notice of the 18th AGM setting out the businesses to be transacted thereat and the Annual Report for the year ended 31st March, 2022 is being sent by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of 18th AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website <https://www.gallant.com> and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at <https://www.bseindia.com>; and NSE at <https://www.nseindia.com>. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting, voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM.

If your email id is already registered with the Company/ Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address.
In case you have not registered your email address with the Company/ Depository and/or not updated your bank account mandate for receipt of dividend, please follow instructions below:

Physical Holding To register your email address for obtaining Annual Report, Notice and login details for e-voting etc.

Send an email request to the Company at csnml@gallant.com providing Folio no., Name of Shareholder(s), scanned copy of the share certificates (front and back), scanned copy of self-attested Pan Card of all holders, scanned copy of self-attested Address proof of all holders for registering email address.
For receiving dividends directly in your bank accounts through Electronic Clearing System (NECS) – Dividend not recommended by Board for F.Y. 2021-22
Send NECS Mandate Form available on the Company's website <http://www.gallant.com> duly filled in and signed by all holders along with below mentioned attachments addressed to "The Company Secretary, Gallant Ispat Limited (Formerly known as Gallant Metal Limited), "GALLANT HOUSE", I-7, Jangpura Extension, New Delhi - 110014".

• Self-Attested Copy of Pan Card of all holders.

• Cancelled Cheque Leaf having Name (If name is not printed on cheque self-attested copy of first page of pass book) of all holders.

Demat Holding Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP.

The shareholders are requested to update their PAN with the Company (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode).

For Gallant Ispat Limited
(Formerly known as Gallant Metal Limited)
Sd/-
(Nitesh Kumar)
Company Secretary
M. No. F7496

Place: New Delhi
Dated: 3rd September, 2022

DISH TV INDIA LIMITED

Corp. Office: FC - 19, Sector 16 A, Noida - 201301, U.P.
Regd. Office: Office No. 3/3, 3rd Floor, Goldline Business Centre, Link Road, Malad West, Mumbai 400064, Maharashtra
E-mail: investor@dishdsh2h.com, CIN: L51909MH1988PLC287553, Website: www.dishdsh2h.com
Tel: 0120-5047000, Fax: 0120-4357078

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of Dish TV India Limited will be held on **Monday, September 26, 2022 at 12:30 PM (IST)** through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set forth in the notice of the AGM of the Company dated August 30, 2022, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 15, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/111 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/162 dated May 12, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") (collectively referred to as "Relevant Circulars").

In compliance with the Relevant Circulars, the notice of AGM along with the annual report for the financial year 2021-22 has been electronically sent on September 04, 2022 to those members who have registered their email addresses with the Company/Depository Participant(s). The copy of the Annual Report is also available on the website of the Company at www.dishdsh2h.com/annual-reports/, on the Website of the BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The relevant documents pertaining to the items of the business to be transacted at the AGM shall be kept open for inspection by the members online during the AGM though video-conference.

The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since this AGM is being conducted through VC/OAVM.

Instructions for remote E-voting and E-voting during the AGM:

- Pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is proposed to provide the facility to the members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions presented to be passed at AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on Monday, September 19, 2022 (cut-off date), can cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at www.evoting.nsdl.com. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM.
- The remote e-voting period will commence at 09:00 AM (IST) on Thursday, September 22, 2022 and will end at 05:00 PM (IST) on Sunday, September 25, 2022. Thereafter the e-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by members, the members cannot modify it subsequently.
- Members who have acquired shares after the sending of the Annual Report through electronic means and before the cut-off date i.e. Monday, September 19, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investors@dishdsh2h.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then they may use their existing User ID and Password, and cast their vote. Members attending the AGM who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however they shall not be eligible to vote at the meeting.
- Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to get their email registered with the Company's Registrar and Transfer Agent, Link India Private Limited by clicking the link https://linkindia.com/e/maileg/email_register.html or by writing to RTA with their details. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail addresses with the concerned Depository participant(s).

The procedure of electronic voting is detailed in the Notice of the AGM and is also available on the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com. In case of queries, members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available in the download section of the e-voting website at NSDL viz. www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM may send a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or in contact Mr. Amit Vishai, Assistant Vice President or Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or call at Toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30.

Any query or grievance connected with the AGM, other than e-voting, may be addressed to the Company Secretary at investor@dishdsh2h.com or at the corporate office address or members may contact Ms. Trupti Parak, Link India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent, at office@linkindia.com C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: +91 022 49186270, Fax: +91 022 49186600, E-mail: rtt.helpdesk@linkindia.com.

For Dish TV India Limited
Sd/-
Ranjit Singh
Company Secretary
Membership No.: A15442

Place: Noida
Date: September 04, 2022

ANUROOP PACKAGING LIMITED

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 28th September, 2022 at 05:00 p.m. Golden Charriot, Western express highway, NH-8, Vasai, Thane, Maharashtra, 401208 to transact the business, as set out in the Notice of AGM. The Company has sent the Notice of AGM on 5th September, 2022 through electronic mode to Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020. The Annual Report for Financial Year 2021-22 is available and can be downloaded from the Company's website <http://anurooppackaging.com/> and websites of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com>. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Member are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by M/s. KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"). The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, September 21, 2022 (cut-off date). The remote e-voting period commences on 24th September, 2022 (9:00 a.m.) and ends on 27th September, 2022 (5:00 p.m.). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by M/s. KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"), thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through ballot voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if he/she is already registered with M/s. KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"), for e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes. In compliance with the General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for fiscal 2022 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s. KFin Technologies Private Limited ("KFinTech"). For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting, you may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-Voting user manual available at the download section of [https://evoting.kfintech](https://evoting.kfintech.com)

मेघालय की एमडीए सरकार से समर्थन वापस ले सकती है बीजेपी

शिलांग, एजेंसी।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के मेघालय प्रभारी एम. चुबा आओ ने शनिवार को कहा कि पार्टी एक महीने के भीतर एनपीपी के नेतृत्व वाली मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन (एमडीए) सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। दो विधायकों वाली भाजपा नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) की छह-पार्टी वाली गठबंधन सरकार की कनिष्ठ सहयोगी है। एओ ने कहा कि पार्टी के विभिन्न स्तरों पर चर्चा चल रही है, जो एक महीने के भीतर एमडीए सरकार को समर्थन देने या न करने को अंतिम रूप देगी।

भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी

राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोपों पर रिपोर्टों का अध्ययन कर रही है और सभी कागजात हासिल करने के बाद सीबीआई आरोपों को संभाल लेगी। भले ही मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा की अध्यक्षता वाली एनपीपी, भाजपा के नेतृत्व वाले उत्तर पूर्व जनतांत्रिक गठबंधन (एनईडीए) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन भगवा पार्टी के साथ इसके संबंध धीरे-धीरे विभिन्न मुद्दों पर खटारा आ रहे हैं। खासकर भाजपा की मेघालय इकाई के उपाध्यक्ष बर्नार्ड एन. मारक की गिरफ्तारी के बाद से दोनों पार्टी में संबंध अच्छे नहीं हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी से अलग हुए योगेंद्र यादव

नई दिल्ली, एजेंसी।

संयुक्त किसान मोर्चा से किसान नेता और स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेवारी से मुक्त करने का आग्रह किया है और उसके बाद ही एस्केएम ने उन्हें इससे मुक्त कर दिया। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान, मजदूर आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और अग्निपथ जैसे मुद्दों के आंदोलन पर सरकार के खिलाफ दूसरे राजनीतिक दलों के संपर्क में हूँ और अपनी पार्टी स्वराज पार्टी में भी सक्रिय हूँ।

उन्होंने कहा कि इसीलिए मुझे मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी से मुक्त करें और जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवीक साहा इस जिम्मेवारी के लिए उपलब्ध रहेंगे और मैं सदस्य होने



के नाते संयुक्त किसान मोर्चा का सिपाही बना रहूंगा, सभी कार्यक्रमों में सहयोग दूंगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कॉमरेड रुलुद सिंह, तर्जिंदर सिंह बिर्क, हनान मोल्लाह, दर्शन पाल और राकेश डिकेत मौजूद थे।

बैठक में नई समन्वय समिति के विस्तार, गठन के लिए नामों का चयन करने के लिए 11 सदस्यीय

प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बात

शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी।

शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को शाम प्रधानमंत्री आवास '7 लोक कल्याण मार्ग' पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को सल्लिकृत करना और उनका सम्मान करना है। यह वह शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के

जीवन को भी समृद्ध किया है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करता है। इस पुरस्कार के लिए इस साल देश भर से 45 शिक्षकों का चयन, तीन चरण की एक कठोर और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले 15



अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में शिक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं थीं। उन्होंने अपने भाषण में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था,

भाषा, खासतौर पर स्थानीय भाषाओं को महत्व देने की बात करते आए हैं। 15 अगस्त को दिए अपने भाषण में भी उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति भाषा के बंधनों को तोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में कहा था,

जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति बनी है। जिस मंथन के साथ बनी है, कोटि-कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी है। हमने जो कौशल पर बल दिया है यह ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है कभी-कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बंध जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए।

वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के वचनों को

दोहराते हुए कह चुके हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक नई आशा लेकर आयी है। भारत की धरती से जुड़ी हुई हमारी शिक्षा नीति भाषा के बंधनों को तोड़ गुलामी की मानसिकता से मुक्ति देने की ताकत देगी। गौरतलब है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम सामग्री सुलभ कराई जा रही है। इसके लिए 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, ओडिया, असमिया, उर्दू और मलयालम में तकनीकी पुस्तक लेखन और अनुवाद की शुरुआत कर ली गई है।

एक नजर

कानून मंत्री ने पूर्व-एससी जज की टिप्पणी पर किया पलटवार

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी.एन. श्रीकृष्ण ने एक राष्ट्रीय दैनिक को दिए एक इंटरव्यू में अभिव्यक्ति की आजादी की कमी पर टिप्पणी की, जिस पर कानून मंत्री किरन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण ने कहा, आज, चीजें बहुत खराब हैं। यह कबूल करना होगा। अगर मैं एक सार्वजनिक चौक पर खड़ा होकर कहूँ कि मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद नहीं है, तो मुझे मजदूर पर छाप मार सकता है, मुझे गिरफ्तार कर सकता है, मुझे बिना कारण बताए जेल में डाल सकता है। अब यह एक ऐसी चीज है जिसका हम सभी को नागरिक के रूप में विरोध करना चाहिए।

सेना प्रमुख पांच दिन की नेपाल यात्रा पर रवाना

नई दिल्ली, एजेंसी। सात दशक पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को सोमवार को काठमांडू में एक समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी 'नेपाली सेना के जनरल' की मानद उपाधि से सम्मानित करेंगी। जनरल पांडे रविवार को नेपाल की पांच दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। इस दौरान वह पड़ोसी देश के असेन्येन्य सैन्य अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे।

किशिदा ने अगले पांच साल के दौरान भारत में पांच ट्रिलियन येन (करीब 3,20,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने का लक्ष्य घोषित किया था।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने रविवार को बताया कि 'टू प्लस टू' संवाद के दौरान द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श के साथ-साथ हिंदू प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री योगेशिमासा हयाशी और रक्षा मंत्री यसुकाजु हमादा करेंगे।

कश्मीर के कालीन नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएंगे

खाग, एजेंसी। दुनियाभर में मशहूर कश्मीर के पारंपरिक हस्तनिर्मित कालीन दिल्ली में निर्माणाधीन नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएंगे। इन कालीनों को बडगाम जिले के दूर-दराज के बुनकर अब अंतिम रूप देने में लगे हैं। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले स्थित खाग गांव के करीब 50 बुनकरों और कारीगरों के समूह पिछले एक साल से इन कालीनों को बुन रहे हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी दिल्ली के एक कंपनी ने दी है। सरकार का कहना है कि संसद का शीतकालीन सत्र नयी इमारत में होगा, जिसका निर्माण नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी स्ट्रटल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के तहत चल रहा है।

हवाईअड्डों पर सीआईएसएफ के तीन हजार पद खत्म

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्र सरकार ने भारतीय हवाईअड्डों पर सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए तीन हजार से अधिक सीआईएसएफ पदों को खत्म कर दिया है। अब उनकी जगह हवाईअड्डों पर गैर-संवेदनशील ड्यूटी निजी सुरक्षा गार्ड करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से तैयार 2018-19 कार्य योजना को अब देशभर के 50 असेन्येन्य हवाईअड्डों पर लागू किया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएसए) और सीआईएसएफ मिलकर करेंगे। विमानन सुरक्षा के नियामक

कांग्रेस डरी नहीं, गरीबों के लिए लड़ाई जारी रखेगी: गौरव गोर्गोई

नई दिल्ली, एजेंसी।

दिल्ली के रामलीला मैदान में 'महंगाई पर हल्ला बोल रेली' को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता गौरव गोर्गोई ने कहा कि वे किसी जांच एजेंसी से नहीं डरते हैं और गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। गोर्गोई ने कहा, अगर केंद्र को लगता है कि कांग्रेस ईडी की जांच से डरी हुई है, तो आए और देखें। हम किसी एजेंसी से नहीं डरते हैं, हम किसानों और देश के वंचित वर्गों के लिए लड़ते रहेंगे।

कीमती में बढ़ोतरी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज जिस सबसे महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रहा है, वह

गहलोत से मिले थरूर, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हुई

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, जिस दौरान दोनों ने पार्टी के भविष्य के कदमों और अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा की। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत उस वक्त हुई है, जब कुछ दिनों पहले ही तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने संकेत दिया था कि वह कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि थरूर रविवार अपराहन यहां जोधपुर हाउस पहुंचे और गहलोत से मुलाकात की।

मंगोलिया, जापान की पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को मंगोलिया और जापान की पांच दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा के हालात और वैश्विक भू राजनीति में उथलपुथल के बीच दोनों देशों के साथ भारत के रणनीतिक एवं रक्षा संबंधों का विस्तार करना है। सिंह पांच से सात सितंबर तक मंगोलिया की यात्रा पर रहेंगे।

यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा इस पूर्वी एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने रविवार को बताया कि जापान में राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ 'टू प्लस टू' प्रारूप में विदेश



और रक्षा मंत्री स्तरीय संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि मंगोलिया से रक्षामंत्री दो दिवसीय यात्रा पर जापान जाएंगे।

वह आठ और नौ सितंबर को जापान में होंगे। वह जापान के साथ 'टू प्लस टू' प्रारूप में आठ सितंबर

को होने वाली वार्ता में शामिल होंगे। यह संवाद जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नयी दिल्ली आने के करीब पांच महीने बाद हो रहा है। नयी दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में

शिवराज ने शिक्षक दिवस से एक दिन पहले शिक्षकों का बढ़ाया उत्साह

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश में शिक्षक दिवस से एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हुए कहा कि शिक्षक नोकर नहीं है, वे तो बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले गुरु हैं। वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन को प्रदेश सरकार का ईवेंट करार दिया।

राजधानी के बीएचईएल दशहरा मैदान में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आए नवनि्युक्त शिक्षकों में से प्रतीक स्वरूप छह शिक्षकों को शुभकामना-पत्र और प्रशिक्षण सामग्री भेंट की।

मुख्यमंत्री चौहान ने इस मौके पर कहा है कि प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए



शासकीय शालाओं के साथ शासकीय मान्यता प्राप्त सभी आशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर की जाएंगी। साथ ही इन शालाओं में आंतरिक सुधारों की नियमित रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा। बच्चों का

भविष्य गढ़ने का दायित्व शिक्षकों पर है। शिक्षक बच्चों को जेसा गढ़ेंगे, वैसा ही देश और प्रदेश का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को उनकी भाषा में शिक्षा देना आवश्यक है। इससे उनकी स्वाभाविक प्रतिभा प्रकट होती है। अपनी भाषा के गौरव को स्थापित

करना आवश्यक है। हमें बच्चों को अंग्रेजी के भय से मुक्त करने की दिशा में भी कार्य करना है। प्रदेश में हिन्दी भाषा में मेंडिकल की पढाई शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने नवनि्युक्त शिक्षकों को सकारात्मक रहते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपके प्रयासों से ही प्रदेश शिक्षा में देश में पहले स्थान पर पहुंचेगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंद्र सिंह परमार ने कहा कि शिक्षक की कार्यशैली और उनका व्यवहार विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपना संपूर्ण समर्पण, शाला और समाज को प्रदान करें और अपने विद्यार्थियों को सर्वोत्तम ज्ञान, संस्कार उपलब्ध कराने के लिए हर-संभव प्रयास करें।

देश में 2021 के दौरान 1.64 लाख से अधिक लोगों ने की आत्महत्या

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में 2021 के दौरान आत्महत्या के कारण 1.64 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई और औसतन लगभग 450 लोगों की मौत प्रतिदिन या 18 लोगों की मौत हर घंटे हुई। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। किसी भी कैलेंडर वर्ष के लिए यह अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 'एक्सिडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया - 2021' रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या करने वाले लोगों में लगभग 1.19 लाख पुरुष, 45,026 महिलाएं और 28 ट्रान्सजेंडर शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में 2020 और 2021 में आत्महत्या के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है।

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 2020 में देशभर में 1.53 लाख लोगों ने आत्महत्या की। रिपोर्ट से पता चला है कि 2019 में आत्महत्या करने वालों की संख्या 1.39 लाख थी, 2018 में यह 1.34 लाख, 2017 में 1.29 लाख जबकि 2020 और 2021 में यह संख्या 1.50 लाख से अधिक थी। एनसीआरबी के अनुसार, वह 1967 से आत्महत्या के मामलों के आंकड़ों का संकलन कर रहा है। उस कैलेंडर वर्ष में इस तरह की मौत के 38,829 मामले दर्ज किये गये थे। इसी समयावधि के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1984 में देश में आत्महत्या के मामलों की संख्या पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार कर गई थी और 1991 में यह 75,000 से ज्यादा हो गई थी।

दौरा गृहमंत्री यहां पहाड़ी समुदाय की बरसातों पुरानी मांगों को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान

अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की बाबत तारीखों को लेकर जारी है मंथन

कुमार सतीश

जम्मू। गृहमंत्री अमित शाह के इसी माह होने वाले संभावित जम्मू-कश्मीर दौरे की तारीखों को लेकर भाजपा में मंथन जारी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान जम्मू डिवीजन में दो तथा कश्मीर डिवीजन में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी इन जनसभाओं के जरिए प्रदेश के पहाड़ी समुदाय के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पहाड़ी समुदाय के लोगों में हिंदू, मुस्लिम तथा सिख

मतदाता शामिल हैं। लेकिन बहुतायत मुस्लिम मतदाताओं की है। पहाड़ी समुदाय के लोग काफी लंबे अरसे से अपने लिए शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग करते आ रहे हैं। कहा गया कि जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी इनकी मांगों पर गौर करने का भरसा दिला चुके हैं। दिलचस्प महलू यह है कि जम्मू कश्मीर में जिन इलाकों में गुजर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं, वहां एक बड़ी तादाद पहाड़ी समुदाय के लोगों की भी है।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित परिसीमन आयोग प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के लिए अकेले राजौरी व पुंछ जिलों की

8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों के शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित किया है। इसलिए यह सहज समझा जा सकता है कि शेड्यूल ट्राइब समुदाय का वोट विधानसभा चुनाव में कितनी महत्वपूर्ण रहता है। सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह पहाड़ी समुदाय के शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को लेकर अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जिसे देखते हुए भाजपा इस बाबत भी सतर्क है कि कहीं गुर्जर समुदाय में यह संदेश ना जाए कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए भाजपा की हरचंद कोशिश है कि गुर्जर समुदाय को भरसे में रखा जाए। बताया गया कि

प्रदेश भाजपा गृह मंत्री अमित शाह के इस जम्मू कश्मीर के प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे को लेकर स्थान तथा तारीखों की बाबत मंथन करने में लगी है। ताकि गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाओं में भारी तादाद में लोग आ सकें। सुना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में स्थान तथा तारीखों को लेकर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस साल पहले 18 व 19 मार्च को जम्मू आ चुके हैं। उस वक्त उन्होंने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस साल यह उनकी जम्मू कश्मीर में दूसरी यात्रा होगी। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश भाजपा की ओर से इस प्रकार की

आम राय बन रही है कि जम्मू डिवीजन में राजौरी तथा डोडा में जनसभाएं आयोजित की जाएं तथा कश्मीर डिवीजन में बारामूला में। उल्लेखनीय है कि जम्मू डिवीजन के जुड़वा जिले राजौरी व पुंछ में गुजर बकरवाल के अलावा पहाड़ी समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में रहते हैं। इसी प्रकार चुनाव रेली के डोडा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा करने का मकसद डोडा के साथ-साथ किश्तवार तथा रामबन क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी समुदाय के लोगों को साधा जा सके। इसी प्रकार उत्तरी कश्मीर के बारामूला में जनसभा आयोजित करने का लक्ष्य इस जिले के पहाड़ी इलाकों में रह रहे पहाड़ी समुदाय के लोगों को मोदी

सरकार की नीतियों तथा पहाड़ी समुदाय के लिए उठाए जाने वाले कदमों की बाबत जानकारी देना है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला, करनाह, कुपवाडा, उड़ी, लोलाब तथा हंदवाडा क्षेत्र में पहाड़ी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। मालूम हो कि परिसीमन आयोग की फुल एंड फाइनल रिपोर्ट के बाद से चुनाव आयोग की गतिविधियां लगातार जोर पकड़े हुए हैं। इस सब से यहां अब यह भरसा लगने लगा है कि अगले साल अप्रैल में माह में यहां के लंबित विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दफ्तर की ओर से मतदाता सूचियों को अपडेट करने का कार्य जारी है।